



## \*प्रेस विज्ञप्ति\*

**\*कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक सितम्बर 27, 2022\***

**\*यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञापत्र, सवारी गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 103 वाहनों का चालान किया गया।

**\*शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 37 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**\*पैदल गश्त अभियान-\*** श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

**\*अबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना बरगदवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त राधेश्याम पुत्र रामसमुझ निर्वाचित थाना बरगदवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 35 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 105/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मार्ग न्यायालय किया गया।

**\*थाना सिन्दुरिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त जितेन्द्र साहनी पुत्र प्रेम थाना सिन्दुरिया जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 लीला कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 147/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मार्ग न्यायालय किया गया।

**\*थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्ता विनीता यादव पुत्री गोविन्द यादव निर्वाचित थाना सोनौली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 11 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 156/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मार्ग न्यायालय किया गया।

**\*कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त अज्ञात के कब्जे से 180 पीस ड्रव सैम्पू बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 111 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया ।

**\*विवेचनाओं का निस्तारण-\*** पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 13 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

**\*जनपद में 26/27.09.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 40 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।\***